



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 89 ]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2001/फाल्गुन 10, 1922

No. 89]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2001/PHALGUNA 10, 1922

ग्रामीण विकास मंत्रालय

( भूमि विकास विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2001

सा.का.नि. 144(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) में अनुसंधान अन्वेषक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भूमि संसाधन विभाग, अनुसंधान अन्वेषक भर्ती नियम, 2001 है।
2. ( ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

#### 4. निरर्हता:वह व्यक्ति—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आवश्यक हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्याप्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1.	2.	3.	4.	5.	6.
अनुसंधान अन्वेषक	5* (2001)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित (अननुसंधितीय)	5500-175-9000/- रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं।  टिप्पण: 1 केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।  टिप्पण: 2 आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

\*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
7.	8.	9.	10.
नहीं	<p>अनिवार्य:-</p> <p>(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/गणित/वणिज्य/प्रचालन अनुसंधान/कृषि (सांख्यिकी सहित) में बैचलर डिग्री या समतुल्य</p> <p>(II) वनों के संग्रहण/संकलन/विनिर्माण और प्रसंस्करण के वनरोपण/घारागाह/वनीय घारागाह/ उद्यान विकास/ मृदा और जल संरक्षण/ जैव प्रौद्योगिकी की मुख्य क्रिया कलापों सहित अवनीय बंजर भूमि/वनों के वाटरशेड विकास में दो वर्ष का अनुभव ।</p> <p>टिप्पणी: 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।</p> <p>टिप्पणी: 2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।</p>	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति. भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
11	12
80% सीधी भर्ती । 20% प्रतिनियुक्ति/आमेलन	<p><u>प्रतिनियुक्ति/आमेलन:-</u> केन्द्र सरकार के ऐसे पदधारी -</p> <p>(क)</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) जिन्होंने 5000-8000 रु के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, या</p> <p>(iii) जिन्होंने 4000-6000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और</p> <p>(ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हैं ।</p>
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13.	14.
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)	आमेसन द्वारा भर्ती या भर्ती नियमों के किन्हीं उपबंधों का संशोधन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(i) संयुक्त सचिव (प्रशा०) ——— अध्यक्ष भूमि संसाधन विभाग	
(ii) उप सचिव (प्रशा०) ——— सदस्य भूमि संसाधन विभाग	
(iii) संबंधित प्रभाग का ——— सदस्य उप महानिरीक्षक वन	

[ फा. सं. ए-12018/2/99-प्रशा. ]

पी. एस. राणा, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

## MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department Land Resources)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2001

**G.S.R. 144(E).—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Research Investigator** in the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources), namely:-

**1. Short Title and commencement -** (1) These rules may be called the **Department of Land Resources Research Investigator Recruitment Rules, 2001.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, its classification and scale of pay -** The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualifications** - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any persons,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** - Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Research Investigator</b>	<b>5 *</b> (2001)	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs.5500-175-9000

Whether Selection by Merit or Selection-cum-Seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible
(5)	(6)	(7)
Not applicable	<p>Not exceeding 30 years</p> <p><b>Note:1</b> Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government</p> <p><b>Note:2</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladkh Division of J&amp;K State, Lahaul &amp; Spiti District and Pangl sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman &amp; Nicobar Islands or Lakshdweep)</p>	No

\* (2001) subject to variation dependent on workload

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.
(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential</b></p> <p>(i) Bachelor's Degree in Statistics/Economics/Mathematics/Commerce/Operations Research/ Agriculture (with Statistics) from a recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) two years' experience in collection/compilation/ formulation and processing of forestry/watershed development programmes on forests/non-forests wastelands with main activities of afforestation/pasture/silvi-pasture/ horticulture development/soil and water conservation/bio-technology</p>	Not applicable	Two years for direct recruits
<p><b>Note:1</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note:2</b> The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>		



Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades on which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
<b>80%</b> Direct Recruitment	<b>DEPUTATION/ABSORPTION</b> Officials of the Central Government:
<b>20%</b> Deputation / Absorption	a) (i) holding analogous posts on regular basis; or  (ii) with three years' regular service in posts in the scale of Rs.5000-8000 or equivalent; or (iii) with eight years' regular service in posts in the scale of Rs.4000-6000 or equivalent; and b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column-8.  (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by Deputation/Absorption shall be not exceeding 56 years/as on the closing date of the receipt of applications)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):</p> <p>i) Joint Secretary (Admn) - <b>Chairman</b> Department of Land Resources</p> <p>ii) Deputy Secretary (Admn) - <b>Member</b> Department of Land Resources</p> <p>iii) Deputy Inspector General of Forests of concerned Division - <b>Member</b></p>	<p>Consultation with UPSC necessary while making appointment by absorption or while amending any provisions of the Recruitment Rules.</p>

[No. A-12018/2/99-Admn.]

P. S. RANA, Jt. Secy. (Admn.)